

अनुक्रमांक :

नाम :

156

349

2019

बहीखाता तथा लेखाशास्त्र

समय : तीन घण्टे 15 मिनट | पूर्णांक : 100

नोट : प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं।

Note : First 15 minutes are allotted for the candidates to read the question paper

निर्देश : i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

ii) प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय हैं। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 30 शब्दों के अन्तर्गत लिखना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 लघु उत्तरीय हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर 100 शब्दों के अन्तर्गत लिखना है।

प्रश्न संख्या 27 से 30 तक विस्तृत उत्तरीय हैं, जिन्हें हल करना है।

iii) प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं।

Instruction :

- All questions are compulsory.
- Question No. 1 to 10 are Multiple Choice Type. Question Nos. 11 to 20 are Very Short Answer Type, which are to be answered within 30 words each. Question Nos. 21 to 26 are Short Answer Type, which are to be answered within 100 words each and Question Nos. 27 to 30 are Long Answer Type, which are to be solved.
- Marks to each question is indicated against it.

(बहुविकल्पीय प्रश्न)

(Multiple Choice Type Questions)

सही उत्तर चुनिए एवं उसे अपनी उत्तर-पुस्तिका में लिखिए :

- 1) जब साझेदारों को पूँजी पर व्याज दिया जाता है तो उसकी गणना सामान्यतया की जाती है ।
 - i) औसत पूँजी पर
 - ii) आरम्भिक पूँजी पर
 - iii) अन्तिम पूँजी पर
 - iv) इनमें से कोई नहीं ।
- 2) किसी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदारों के मध्य लाभों का बंटवारा किया जाता है ।
 - i) फर्म की पूँजी में अपने अंशदान के अनुपात में
 - ii) व्यवसाय में उनके द्वारा लगाये गये अपने समय के अनुपात में
 - iii) प्रत्येक साझेदार द्वारा विक्रय के अनुपात में
 - iv) समान अनुपात में ।
- 3) साझेदारी अधिनियम लागू हुआ ।
 - i) 1932 में
 - ii) 1956 में
 - iii) 1947 में
 - iv) 1952 में ।

- 4) 'गनर बनाम मर' के अनुसार किसी दियालिये साझेदार की पूँजी के घाटे को अन्य साझेदारों में विभाजित किया जाता है ।
 - i) लाभ-हानि अनुपात में
 - ii) पूँजी अनुपात में
 - iii) वितरण से पूर्व की पूँजी के अनुपात में
 - iv) इनमें से कोई नहीं ।
- 5) ऋणपत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती दर्शायी जाती है ।
 - i) चिट्टे के सम्पत्ति पक्ष में
 - ii) चिट्टे के दायित्व पक्ष में
 - iii) लाभ-हानि खाते के नाम पक्ष में
 - iv) लाभ-हानि खाते के जमा पक्ष में ।
- 6) अपहरित अंश खाते के शेष को हस्तान्तरित किया जाता है ।
 - i) अंश पूँजी खाते में
 - ii) संचित पूँजी खाते में
 - iii) अंशधारियों के खाते में
 - iv) सामान्य संचय खाते में ।
- 7) अंशों के निर्गमन प्रीमियम में हस्तान्तरित किया जाता है ।
 - i) लाभ-हानि खाता
 - ii) संचित पूँजी खाता
 - iii) संभाव्य संचित खाता
 - iv) इनमें से कोई नहीं ।

- 8) हास की किस विधि के अन्तर्गत सम्पत्ति की रक्क़ कभी भी घटकर शून्य नहीं होती है ?
 i) सीधे रेखा पद्धति
 ii) वार्षिकी विधि
 iii) वर्ष के अंकों की योग विधि
 iv) हासित शेष विधि । 1
- 9) आय एवं व्यय खाते का क्रेडिट शेष दर्शाता है ।
 i) नकद भुगतानों पर नकद प्राप्तियों का आधिक्य
 ii) व्यय पर आय का आधिक्य
 iii) आय पर व्यय का आधिक्य
 iv) नकद प्राप्तियों पर नकद भुगतानों का आधिक्य । 1
- 10) किसी फर्म के तरलता स्तर को उचित रूप से दर्शाता है ।
 i) चालू अनुपात
 ii) प्राप्य सामग्री विक्रय अनुपात
 iii) त्वरित अनुपात
 iv) सामग्री विक्रय अनुपात । 1

Select the correct answers and write them in your answer-book :

- 1) When interest is allowed on the capital of the partners, it is generally calculated on
 i) Average capital
 ii) Opening capital
 iii) Closing capital
 iv) None of these. 1

- 2) In the absence of any agreement profit is divided among partners
 i) in the ratio of their contribution to the capital of the firm
 ii) in the ratio of time devoted by them to business
 iii) in the ratio of sales by each partner
 iv) in equal ratio. 1
- 3) Partnership Act was implemented in
 i) 1932
 ii) 1956
 iii) 1947
 iv) 1952. 1
- 4) According to Garner vs Murrey deficiency of capital of any insolvent partner is divided
 i) in the ratio of profit & loss
 ii) in capital ratio
 iii) in the ratio of pre-distribution capital
 iv) none of these. 1
- 5) Discount on issue of debentures is shown in
 i) Asset side of Balance sheet
 ii) Liability side of Balance sheet
 iii) Debit side of Profit and Loss account
 iv) Credit side of Profit and Loss account. 1
- 6) The balance of share forfeited account is transferred to
 i) Share capital account
 ii) Reserve capital account
 iii) Shareholder's account
 iv) General Reserve account. 1

- 7) Premium on issue of shares is transferred to
 i) Profit & Loss A/c
 ii) Reserve Capital Account
 iii) Contingent Reserve A/c
 iv) None of these. 1
- 8) Under which method of depreciation the amount of asset is never reduced to zero?
 i) Straight line method
 ii) Annuity method
 iii) Sum of years digit method
 iv) Diminishing Balance method. 1
- 9) The credit balance in the income and expenditure account indicates
 i) excess of cash receipts over cash payments
 ii) excess of income over expenditure
 iii) excess of expenditure over income
 iv) excess of cash payments over cash receipts. 1
- 10) The liquidity level of any firm is properly disclosed by
 i) Current ratio
 ii) Receivable to turnover ratio
 iii) Quick ratio
 iv) Inventory to turnover ratio. 1

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

(Very Short Answer Type Questions)

11. साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं ? 2
11. What do you mean by partnership deed ? 2
12. त्याग अनुपात क्या है ? 2
12. What is sacrifice ratio ? 2

13. परिवर्तनशील पूँजी खाते से क्या आशय है ? 2
13. What is meant by variable capital account ? 2
14. अंशों पर बकाया मांग से आप क्या समझते हैं ? 2
14. What do you understand by calls in arrear on shares ? 2
15. ऋणपत्र से क्या आशय है ? 2
15. What is meant by Debenture ? 2
16. अनुपात विश्लेषण का क्या उद्देश्य है ? 2
16. What are the objectives of Ratio analysis ? 2
17. पूँजीगत लाभ क्या है ? 2
17. What is capital profit ? 2
18. पूर्वाधिकार अंश से क्या आशय है ? 2
18. What is meant by preference share ? 2
19. चालू सम्पत्ति को परिभाषित कीजिए । 2
19. Define Current Asset. 2
20. अंशों के हरण से आपका क्या अभिप्राय है ? 2
20. What do you mean by forfeiture of shares ? 2

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

(Short Answer Type Questions)

21. साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारी के क्या नियम लागू होते हैं ? 5
21. What rules of partnership apply in the absence of partnership deed ? 5
22. मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना कैसे की जाती है ? 5

22. How is the amount payable to the executors of deceased partner calculated? 5
23. प्रतिभूति प्रबन्धन क्या है ? इसके उपयोग बताइए । 2 + 3
23. What is security premium ? State its uses. 2 + 3
24. ऋणपत्र शोधन कोष को समझाइए । 5
24. Explain debenture redemption fund. 5
25. अंश व ऋणपत्र में अन्तर बताइए । 5
25. Differentiate between share and debenture. 5
26. चालू अनुपात से आप क्या समझते हैं ? उपयुक्त उदाहरणों द्वारा समझाइए । 5
26. What do you mean by current ratio ? Explain with suitable examples. 5

(विस्तृत उत्तरीय प्रश्न)

(Long Answer Type Questions)

27. साझेदारों का 31 दिसम्बर, 2018 का आर्थिक चिट्ठा निम्नांकित था :

दायित्व	रकम (रु०)	सम्पत्तियाँ	रकम (रु०)
देय विपत्र	3,300	रोकड़	600
लेनदार	6,000	देनदार	10,800
पूँजी		रहतिया	11,400
आशु 16,800		फर्नीचर	2,400
नौरज 12,600		भवन	19,500
विवेक 6,000	35,400		
	44,700		44,700

आशु, नौरज एवं विवेक लाभ-हानि समान अनुपात में बाँटते हैं । 31 दिसम्बर, 2018 को उन्होंने सुनील को निम्न शर्तों पर साझेदार बनाने का निर्णय लिया :

- सुनील ख्याति के लिए रु० 9,000 व पूँजी के लिए रु० 15,000 देता है ।
- ख्याति की आधी राशि पुराने साझेदारों द्वारा निकाल लिया जाता है ।
- रहतिया तथा फर्नीचर का मूल्य 10% कम हो गया ।
- देनदारों के संदिग्ध ऋणों के लिए 5% की दर से संचित किया जाना है ।
- भवन का पुनर्मूल्यांकन रु० 27,000 किया गया ।

उपरोक्त सूचनाओं से फर्म का लाभ-हानि समायोजन खाता तथा नई फर्म का चिट्ठा बनाइए । 5 + 5

अथवा

साझेदारी फर्म के विघटन से आपका क्या आशय है ? साझेदारी के विघटन एवं साझेदारी फर्म के विघटन में अन्तर कीजिए । 3 + 7

27. Partners' Balance Sheet as on 31st December, 2018 was as follows :

Liabilities		Assets	
	Amount (Rs.)		Amount (Rs.)
Bills payable	3,300	Cash	600
Creditors	6,000	Debtors	10,800
Capital		Stock	11,400
Ashu	16,800	Furniture	2,400
Neeraj	12,600	Building	19,500
Vivek	6,000		
	35,400		
	44,700		44,700

Ashu, Neeraj and Vivek share Profit and Loss in equal ratio. On 31st December, 2018 they admitted Suneel in partnership on the following conditions :

- Suneel brings Rs. 9,000 for goodwill and Rs. 15,000 for capital.
 - Half of the amount of goodwill is withdrawn by old partners.
 - Value of stock and furniture is reduced by 10%
 - Reserve is to be made @ 5% for doubtful debts on debtors.
 - Building was revalued at Rs. 27,000.
- Prepare Profit and Loss Adjustment Account and Balance Sheet of the new firm from the above information. 5 + 5

OR

What do you mean by dissolution of Partnership firm ? Differentiate between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. 3 + 7

28. जयश्री लिमिटेड ने रु० 100 वाले 30000 समता अंशों का निर्गमन किया। अंशों पर देय राशि निम्न प्रकार थी : रु० 2 प्रति अंश आवेदन पर, रु० 3 प्रति अंश आवंटन पर, प्रथम याचना पर रु० 2 एवं द्वितीय एवं अन्तिम याचना पर रु० 3। अशोक जिसके पास 1000 अंश थे, ने इन अंशों पर द्वितीय व अन्तिम याचना की राशि का भी प्रथम याचना के साथ अग्रिम भुगतान कर दिया।

अग्रिम राशि पर 6% ब्याज देय था। सभी याचनायें की गई एवं राशियाँ यथासमय प्राप्त हो गई। अंशधारियों को ब्याज की राशि का भुगतान किया गया। कम्पनी की पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लेखे कीजिए।

10

अथवा

पूर्वाधिकार अंशों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए।
पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किस प्रकार किया जाता है ?

5 + 5

28. Jaishree Ltd. issued 30000 equity shares of Rs. 100 each. Amount payable on shares was as follows :
On application Rs. 2 per share, on allotment Rs. 3 per share, on First call Rs. 2 per share and on Second and Final call Rs. 3 per share. Ashok who has 1000 shares paid his second and final call in advance with the first call.
6% interest was payable on calls in advance. All calls were made and amounts were duly received. Interest was paid to shareholders. Pass the necessary Journal entries in the books of company.

10

OR

Describe various kinds of preference shares. How are preference shares redeemed?

29. 1 अक्टूबर, 2016 को लता ट्रांसपोर्ट कम्पनी ने रु० 4,00,000 में एक ट्रक खरीदा। 1 अप्रैल, 2018 को यह ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और पूरे तरह से नष्ट हो गया। बीमा कम्पनी से पूर्ण निम्नो में 3,00,000 रु० प्राप्त हुए। उसी तिथि को कम्पनी द्वारा दूसरा ट्रक रु० 5,00,000 में खरीदा गया। कम्पनी 20% प्रतिवर्ष को दर से हास क्रमागत हास पद्धति से काटती है। 2016 से 2018 तक ट्रक खाता बनाइए। कम्पनी अपने खाते प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर को बन्द करती है।

अथवा

- अनुपात विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? अनुपात विश्लेषण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए।
29. On 1st October, 2016 Lata Transport Company purchased a truck for Rs. 4,00,000. On 1st April, 2018 this truck was involved in an accident and was completely destroyed. Rs. 3,00,000 was received from the insurance company in full settlement. On the same date another truck was purchased by the company for Rs. 5,00,000. The company writes off 20% depreciation per annum on Diminishing Balance Method. Prepare Trucks Account from 2016 to 2018. The accounts are closed on 31st December each year.

OR

What do you mean by Ratio Analysis? Describe the different methods of Ratio analysis.

30. रोटरी क्लब का 31 मार्च, 2018 का तलपट निम्नांकित है :

विवरण	धनराशि (रु०)	विवरण	धनराशि (रु०)
फर्नीचर	2,500	टिकटों की बिक्री	3,234
आलमारी	1,250	सदस्यता शुल्क	10,560
छपाई व स्टेशनरी	734	प्रवेश शुल्क	448
कार्यालय व्यय	333	विविध आय	1,743
वेतन	2,262	लेनदार	2,600
रोकड़ हाथ में	174	पिछले वर्ष का शेष	4,000
रोकड़ बैंक में	4,800	(आय का व्यय पर आधिक्य)	
किराया	3,194		
विद्युत व्यय	1,618		
मीटिंग व्यय	2,190		
विविध व्यय	1,600		
अंकेक्षक शुल्क	760		
देनदार	1,170		
	22,585		22,585

समायोजनार्थ :

- i) फर्नीचर पर 10% और आलमारी पर 20% हास की व्यवस्था करनी है।

ii) रु० 250 सदस्यता शुल्क के 31 मार्च, 2018 को बाकी थे।

31 मार्च, 2018 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए आय-व्यय खाता तथा चिट्ठा तैयार कीजिए। 6 + 4

अथवा

विनियोगों के क्रय विक्रय पर ब्याज सहित एवं ब्याज रहित का क्या तात्पर्य है ? उदाहरण देकर समझाइए।

5 + 5

30. Trial Balance of Rotary Club on 31st March, 2018 is as follows :

Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Furniture	2,500	Sale of tickets	3,234
Almirah	1,250	Membership fees	10,560
Printing & Stationery	734	Entrance fees	448
Office expenses	333	Sundry income	1,743
Salary	2,262	Creditors	2,600
Cash in hand	174	Last year Balance	4,000
		(Excess of income over expenditure)	
Cash at Bank	4,800		
Rent	3,194		
Electric Charges	1,618		
Meeting Expenses	2,190		
Sundry Expenses	1,600		
Audit fees	760		
Debtors	1,170		
	22,585		22,585

Adjustments :

i) Provide for depreciation @ 10% on furniture and 20% on almirah.

ii) Rs. 250 of membership fees was outstanding on 31st March, 2018

Prepare Income and Expenditure Account and Balance Sheet for the year ending on 31st March, 2018. 6 + 4

OR

What are meant by cum-interest and ex-interest at the time of purchase and sales of investments ? Explain with illustrations. 5 + 5

349 - 1,45,000